

Previous Year	Current Year to date figures for nine months ended	Previous Year to date figures for nine months ended	Previous year ended
Quarter ended 31.12.2017	31.12.2017 Unaudited	31.12.2016 Unaudited	31.03.2017 Audited
68.44	2,616.73	3,694.35	5,300.84
60.39	121.91	1,654.77	2,151.72
60.39	121.91	1,654.77	2,151.72
22.39	77.36	1,104.77	1,298.89
NA	NA	NA	NA
69.89	1,229.89	1,229.89	1,229.89
			10,303.30
6.69	0.63	8.98	10.55
6.69	0.63	8.98	10.55
6.69	0.63	8.98	10.55
6.69	0.63	8.98	10.55

For PIONEER INVESTCORP LIMITED.  
G. M. GANDHI  
MANAGING DIRECTOR

नोंदणीकृत कार्यालय: युनिट क्र. १२०७, बी विंग, वन बीकेली, प्लॉट क्र. सी-६६, दाद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, दाद्रे (पु.), मुंबई-४०००५१.  
सीआयएन: एल५१००एमएच१९८५पीएलसी०३६०८८  
फॉक्स: ०२२-६९३४०९९६ फॅक्स: ०२२-६९३४०९९९ ई-मेल: ganontrading@gmail.com वेबसाईट: www.ganontrading.com  
३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी संपलेल्या तिमाही व नऊमाहीकरिता अलेखापरिहित वित्तीय निष्कर्षांचा अहवाल  
(रु.लाखात)

तपशील	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली नऊमाही	संपलेली नऊमाही
	३१.१२.२०१७	३०.०९.२०१७	३१.१२.२०१६	३१.१२.२०१७	३१.१२.२०१६
कार्यघटनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	९९१.००	-	-	९९१.००	०.१०
कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)(कर, अपवादोत्पन्न आणि/किंवा विशेष साधारण बाबत)	६.२६	(१.७४)	(३.२२)	२.३९	(११.२५)
कल्पपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादोत्पन्न आणि/किंवा विशेष साधारण बाबत)	६.२६	(१.७४)	(३.२२)	२.३९	(११.२५)
करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)	६.२६	(१.७४)	(३.२२)	२.३९	(११.२५)
कालावधीकरिता एकूण सर्वेक्ष उत्पन्न (कालावधीकरिता सर्वेक्ष नफा/(तोटा) आणि इतर सर्वेक्ष उत्पन्न (करानंतर))	६.२६	(१.७४)	(३.२२)	२.३९	(११.२५)
समभाग भांडवल (दर्शनी मुल्य रु.१०/- प्रती)	९३३.१०	९३३.१०	९३३.१०	९३३.१०	९३३.१०
उत्पन्न प्रतिभाग (रु.१०/- प्रती)					
(खंडीत व अखंडीत कार्यघटनाकरिता)					
अ) मूल	०.०७	(०.०२)	(०.०३)	०.०३	(०.१२)
ब) सौमिकता	०.०७	(०.०२)	(०.०३)	०.०३	(०.१२)

टिप:  
१. कंपनीने भारतीय लेखाप्राणणे (इंड-एस) स्विकारले आहे आणि तदनुसार कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३३ सहाय्यता त्यातील आवश्यक नियमांतर्गत आणि भारतात सर्वसाधारणपणे स्विकृत इतर लेखा प्रमाणानुसार विहित इंड-एस ३४-अंतरिम वित्तीय अहवालात नमुद शिफारसी व प्रमाणानुसार सर्व कालावधीचे वित्तीय निष्कर्ष तयार केले आहेत.  
२. सेबी (लिसिंग ऑर्डिनेन्स अॅण्ड डिस्चलोजर रिग्युलेशन) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षांचे सविस्तर नमुदयत्तील उताऱा आहे. त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण नमुद स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर आणि कंपनीच्या www.ganontrading.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.  
मंडळाच्या वतीने व करिता राही/-  
मदन लाल गोयल  
संचालक  
डीआयएन:००४५६३९४

दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०१८  
ठिकाण: मुंबई

**डॉ. सुर्वेश लक्ष्मीप**  
दिनांक: ०८/०२/२०१८

**मिटेड**  
३०६३२६५  
आधार: कालावधी, मुंबई-४००००२.  
मेल: rugbyhotel@rediffmail.com  
**क्षीत वित्तीय निष्कर्षांचा अहवाल**  
(रु.लाखात)

संपलेली तिमाही	वर्ष ते तारीख आकडे	वर्ष ते तारीख आकडे
अलेखापरिहित	३१.१२.२०१७	३१.१२.२०१६
	(३.४०)	(४.११)
	(३.४०)	(४.११)
	(३.४०)	(४.११)
	(३.४०)	(४.११)
	१४३२.२८	१४३२.२८
	(०.०३२४)	(०.०२८७)
	(०.०३२४)	(०.०२८७)

३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली संपूर्ण नमुद कंपनीच्या www.hotelrugby.in व www.vebasaइटवर उपलब्ध आहे.  
रेग्युलेशन २०१५ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि ०६.०२.२०१८ रोजी अहवालात ये लागू असलेले तपवेच केले जाईल.  
हॉटेल रुग्बी लिमिटेडकरिता राही/-  
महेंद्र आकर  
सीईओ व संचालक  
डीआयएन: ०१४०५२५३

**PUBLIC NOTICE**

Property bearing C.S. No 957 of Bhuleshwar Division, situated at 595, J.S.S. Road, Mumbai-400 002 in 'C' Ward, Cess No. C-1988 known as Pokhraj Building is proposed for redevelopment under the benefit of D.C. Regulation section 33(7), as per the directions of Govt. of Maharashtra in Housing Department. The proposal for redevelopment under DCR 33(7), was submitted to MBRR Board, (MHADA)-

The List of Tenants / Occupants is certified by the MBRR Board, as detailed below.

**Pokhraj Building**

Sr. No.	Name of Tenants	Name of Occupants	Floor	Shop/ Room No.	Use RNR
1	Ardeshar Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Shop at ground floor	NR
2	Ardeshar Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Room at ground floor Store room	NR
3	Ottermal Gulabchandji Jain	Deepak Ottermal Jain Devendra Ottermal Jain	First	Room at First floor	R
4	Mehul Shah & Rushab Shah	Mehul Shah & Rushab Shah	Second	Room at Second floor	R
5	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Third	Room at Third floor	R
6	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Fourth	Room at Fourth floor	R

Any person having any objection regarding Tenancy / Occupancy right, the title interest or claim against the above premises area, is requested to submit the same within one month from the date of publication of this notice to the Chief Officer / MBRRB, having office at 3rd Floor, Griha Nirman Bhavan, Kalanagar Bandra (E), Mumbai - 400051.

Please note that, objection / suggestions after stipulated time will not be entertained.

**The General Manager (R & R)**  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited  
Na MTTRI Building, Plot No. R-13,  
'E' Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400051.

ति तिमाही में मुद्रास्फीति का में हुई पिछली मौद्रिक नीति का मूल्य सूचकांक आधारित न जताया था। रिजर्व बैंक ने ति आने के कारण दिसंबर में हालांकि दिसंबर में कीमतों

सकता है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को तीन गुना बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को पास करने के लिए इसे कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट 2.57 के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से बेसिक सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रूपए किया गया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर फिटमेंट फैक्टर 3.7 के तहत 26000 रूपए किया जाए।

मेरी गो राउंड की टिकटों पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि राज्य पंजायत और नगर निकायों के जरिए मनोरंजन या अम्यूजमेंट पार्कों पर स्थानीय कर नहीं बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीएसटी में कटौती का लाभ बच्चों और उनके परिवारों को मिल सके।

कहा गया है कि जीएसटी परिषद ने थीम पार्क, वॉटर पार्क, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग और बैले के लिए भी कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। इसमें कहा गया है कि सर्कस, नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के प्रवेश टिकटों पर छूट की सीमा को दोगुना कर 500 रूपए कर दिया गया है।

## दिने पटी

पटी वसूलने से दर 8 प्रतिशत करार ने यह भी के बाद मकान रिदने वालों से 8 जनवरी को एस) के तहत की बात कही। ट में बुनियादी वाली राशि में आ गई है। यह न में कहा कि तथा पूंजीगत सस्ते खंड में गा। बयान के मार्ग सेवा पर इनपुट टैक्स

को सोना 50 रूपए टूटकर थे। सोने की 105 रूपए के कड़ा के स्तर

### अदालती नोटिस

हेतु संदर्भित करने कि सूचना  
न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय जौनपुर (उपग्रो)  
मु०न० 273 सन् 2017  
धारा 125 सीआर०पी०सी०  
थाना चन्द्रवक जिला जौनपुर (उपग्रो)  
रेखा गुप्ता आदि बनाम मनोज कुमार गुप्ता  
बनाम (1) मनोज कुमार गुप्ता पुत्र  
हीरालाल गुप्ता सा०मी० कोठवा थाना  
जलालपुर जौनपुर। हाल पता रमाबाई  
रूम न० 185 माटुंगा लेबर कैम्प साहू  
नगर पुलिस चौकी टाणे मुंबई (विपक्षी)  
चुकि उपर नामांकित ने इस न्यायालय  
में यह आवेदन किया जाता है कि  
अतएव आपको एतद् द्वारा चेतावनी  
दी जाती जाति कि आपको आवेदन  
के खिलाफ संवागित करन के लिये  
स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुदिष्ट अपने  
अधिवक्ता द्वारा सज्जात द्वारा ही ऐसा  
करने से असफल रहने पर उक्त  
आवेदन एकपक्षी सुना और अवधारित  
किया जायेगा।  
तारीख पेशी 08-03-2018  
आपत्ति/निस्तारण  
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की  
मुहर सहित निकाली गयी  
(न्यायालय)

हमारा महानगर दिनांक 8/02/2018

### PUBLIC NOTICE

Property bearing C.S. No 957 of Bhuleshwar Division, situated at 595, J.S.S. Road, Mumbai-400 002 in 'C' Ward, Cess No. C-1988 known as **Pokhraj Building** is proposed for redevelopment under the benefit of D.C. Regulation section 33(7), as per the directions of Govt. of Maharashtra in Housing Department. The proposal for redevelopment under DCR 33(7), was submitted to MBRR Board, (MHADA).  
The List of Tenants / Occupants is certified by the MBRR Board, as detailed below.

Sr.No.	Name of Tenants	Name of Occupants	Floor	Shop/Room No.	Use R/NR
1	Ardasher Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Shop at ground floor	NR
2	Ardasher Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Room at ground floor Store room	NR
3	Ottermal Gulabchandji Jain	Deepak Ottermal Jain Devendra Ottermal Jain	First	Room at First floor	R
4	Mehul Shah & Rushab Shah	Mehul Shah & Rushab Shah	Second	Room at Second floor	R
5	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Third	Room at Third floor	R
6	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Fourth	Room at Fourth floor	R

Any person having any objection regarding Tenancy / Occupancy right, the title interest or claim against the above premises area, is requested to submit the same within one month from the date of publication of this notice to the Chief Officer/MBRRB, having office at 3rd floor, Griha Nirman Bhavan, Kalanagar Bandra (E), Mumbai - 400051.  
Please note that, objection / suggestions after stipulated time will not be entertained.

The General Manager (R & R)  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited  
Na MTTRI Building, Plot No.R-13,  
'E' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai -4000051

## बृहत्मुंबई महानगरपालिका

कार्यालय, उप मुख्य अभियंता ( स्टोर्म वॉटर ड्रेन ) पूर्वी उपनगर

5वीं मंजिल, गैरज बिल्डिंग, पंतनगर बेस्ट डिपो के पीछे, पंत नगर, घाटकोपर (पू), मुंबई-400 075

ACTIVE TIME DATE - 8-Feb-2018

ay 8 February 2018

3

**NOTICE**

... was the member of the Shubh Karma ... Having address at Karma Kshetra (B1 Kollwada, Mumbai-400037. And Holding ... of the Society on 11 th Floor, died on ... but making any Nomination.

... claim or objections from the heir or heirs or ... the transfer of the said shares & ... member in the capital property of the society ... the publication of this Notice with copies ... other proofs in support of his/her / their ... (shares & interest of the deceased ... of the Society. If no claims/objection ... prescribed above, the society shall be ... & interest of the deceased member in ... Society in such manner as is provided under

... received by the society for transfer of ... deceased member in the capital property ... with in the manner provided under by- ... the registered bye laws of the society is ... claimants/objectors in the office of the ... the Society between 10 am. To 5. Pm. ... the NOTICE till the date of expiry of the

... SING SOCIETY LTD. ... ada, Mumbai -400037.

(Chairman)

**SUPREME INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED**

MH1983PLC029752  
IT Main Gate, Powai, Mumbai 400 076.  
22 6128 9711 Website: www.supremeinfra.com

**NOTICE**

... to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing ... (Amendment) Regulations, 2015, the Meeting of ... Infrastructure India Limited, is scheduled to be ... 2018, to inter-alia, consider and approve ... the quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup>

... on the website of the Company at ... the website of the Stock Exchange at ... ndia.com

... SUPREME INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED  
Sd/-  
VIJAY JOSHI  
COMPANY SECRETARY

**BULLISH BONDS & HOLDINGS LIMITED**

... eela Mall, Behind Poisar Depot, S.V. Road, ... / CIN: L19202MH1981PLC298496 ... Email id: bullishbonds@gmail.com  
022 - 655 22207

**BOARD MEETING**

... Regulation 47 of the Securities and Exchange Board ... Requirements) Regulations, 2015 (Listing ... a meeting of the Board of Directors of the ... Wednesday, February 14th, 2018, inter alia, to ... nancial Results along with Limited Review Report ... December 31st, 2017.

... on the Company's website at http:// ... e accessed on the Stock Exchange website at

... ed that the close period (i.e. closure of trading ... duct for Prevention of Insider Trading read with ... hhibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ... 8 and end 48 hours after the results are made

For Bullish Bonds & Holdings Limited

Sd/-  
Mr. Mitesh Dani  
Managing Director

**PUBLIC NOTICE**

Property bearing C.S. No 957 of Bhuleshwar Division, situated at 595, J.S.S. Road, Mumbai-400 002 in 'C' Ward, Cess No. C-1988 known as Pokhraj Building is proposed for redevelopment under the benefit of D.C. Regulation section 33(7), as per the directions of Govt. of Maharashtra in Housing Department. The proposal for redevelopment under DCR 33(7), was submitted to MBRR Board, (MHADA).

The List of Tenants / Occupants is certified by the MBRR Board, as detailed below.

**Pokhraj Building**

Sr. No.	Name of Tenants	Name of Occupants	Floor	Shop/ Room No.	Use R/NR
1	Ardeshar Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Shop at ground floor	NR
2	Ardeshar Dadabhai	Kersy Eruch Engineer	Ground	Room at ground floor Store room	NR
3	Ottermal Gulabchandji Jain	Deepak Ottermal Jain Devendra Ottermal Jain	First	Room at First floor	R
4	Mehul Shah & Rushab Shah	Mehul Shah & Rushab Shah	Second	Room at Second floor	R
5	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Lata H. Gilitwala & Hitendra M. Gilitwala	Third	Room at Third floor	R
6	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Vijay Ratilal Nayak & Rita Vijay Nayak	Fourth	Room at Fourth floor	R

Any person having any objection regarding Tenancy / Occupancy right, the title interest or claim against the above premises area, is requested to submit the same within one month from the date of publication of this notice to the Chief Officer / MBRRB, having office at 3rd Floor, Griha Nirman Bhavan, Kalanagar Bandra (E), Mumbai - 400051.

Please note that, objection / suggestions after stipulated time will not be entertained.

The General Manager (R & R)  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited  
Na MTTRI Building, Plot No. R-13,  
'E' Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-4000051.

**MEGA FIN (INDIA) LTD.**

CIN-L65900MH1982PLC027165

Registered Office: 302, Level 3, CoeJay House, Shiv Sagar Estate, F-Block, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018  
Phone No. 022 42305500 Email id: info@megaфинindia.com & website: www.megaфинindia.com

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2017**

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2017 (Unaudited)	30.09.2017 (Unaudited)	31.12.2016 (Unaudited)	31.12.2017 (Unaudited)	31.12.2016 (Unaudited)	31.03.2017 (Audited)
1	Income	-	-	-	8.05	0.45	0.51
	Other Income	-	-	-	8.05	0.45	0.51
	Total Income	-	-	-	8.05	0.45	0.51
2	Expenditure	8.34	1.77	1.17	8.33	3.46	4.99
	Other Expenses	8.34	1.77	1.17	8.33	3.46	4.99
	Total Expenditure	8.34	1.77	1.17	8.33	3.46	4.99
3	Profit/(Loss) from operations before Interest and Exceptional Items (1-2)	(8.34)	(1.77)	(1.17)	(0.28)	(3.01)	(4.18)
4	Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
5	Prior period Items Net Income/ (Net Expense)	-	-	-	-	-	-
6	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (3-4-5)	(8.34)	(1.77)	(1.17)	(0.28)	(3.01)	(4.18)
7	Tax Expense	(1.15)	(0.30)	-	-	-	-
	- Current tax	(1.15)	(0.30)	-	-	-	-
	- Deferred Tax (Asset)/Liability	-	-	-	-	-	-
8	Net Profit (+)/Loss(-) from Ordinary Activities after tax (6-7)	(5.19)	(1.47)	(1.17)	(0.28)	(3.01)	(4.18)
9	Extraordinary Item (net of tax expenses)	-	-	-	-	-	-
10	Net Profit (+)/Loss(-) for the period (8-9)	(5.19)	(1.47)	(1.17)	(0.28)	(3.01)	(4.18)
11	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10)	917.79	917.79	917.79	917.79	917.79	917.79
12	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	(696.97)
13	Earning Per Share (EPS) Basic and diluted EPS before and after Extraordinary Items (not annualized)	(0.06)	(0.02)	(0.01)	(0.003)	(0.04)	(0.06)
	Basic	(0.06)	(0.02)	(0.01)	(0.003)	(0.04)	(0.06)
	Diluted	(0.06)	(0.02)	(0.01)	(0.003)	(0.04)	(0.06)